



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 1979/ आश्विन 13, 1901

No. 314]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 1979/ASVINA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1979

सा० का० सि० 569(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अधिलिखित भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 81) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (3) में,

(क) प्रारम्भिक वाक्य में "साधारणतया विचार नहीं किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "विचार नहीं किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) जहाँ कहीं भी "52 वर्ष" शब्द और शब्द अंकित हुए हों के स्थान पर "54 वर्ष" शब्द और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ग) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—
"परन्तु यह और भी कि राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य पर, जो उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को, जिस वर्ष में समिति की बैठक हो 54 वर्ष का हो गया हो, और यदि ऐसी बैठक होने के वर्ष की पहली जनवरी अथवा ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की पहली जनवरी को वह विचार किए जाने का पात्र था, लेकिन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों के दौरान समिति की कोई बैठक न होने के कारण, उस पर विचार नहीं किया जा सका था, समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

[संख्या 28013/20/76-अ० भा० से० (1)-क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & A.R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1979

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the

following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulation 5, in sub-regulation (3),—

- (a) in the opening sentence, for the words "shall not ordinarily consider", the words "shall not consider" shall be substituted;
- (b) for the figure and word "52 years", wherever they occur, the figure and word "54 years" shall be substituted;
- (c) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided further that a member of the State Civil Service who has attained the age of fifty-four years on the first day of January of the year in which the Committee meets shall be considered by the Committee, if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or of any of the years immediately preceding the year in which such meeting is held but could not be considered as no meeting of the Committee was held during such preceding year or years".

[No. 28013/20/76-AIS(I)-A]

सा० का० नि० 570(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित अधिल भारतीय सेवाएं, अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5, के उप-विनियम (3) में,

(क) प्रारम्भिक वाक्य में "साधारणतया विचार नहीं किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "विचार नहीं किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) जहाँ कहीं भी "52 वर्ष" शब्द तथा शब्द अंकित हुए हों के स्थान पर "54 वर्ष" शब्द तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ग) अन्त में निम्नलिखित परन्तु जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—
"परन्तु यह और भी कि राज्य पुलिस सेवा के किसी सदस्य पर, जो उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को, जिस वर्ष में समिति की बैठक हो 54 वर्ष का हो गया हो, और यदि ऐसी बैठक होने के वर्ष की पहली जनवरी अथवा ठीक पूर्ववर्ती वर्षों की पहली जनवरी को वह विचार किए जाने का पात्र था, लेकिन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्षों के दौरान समिति की कोई बैठक न होने के कारण, उन पर विचार नहीं किया जा सका था, समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

[संख्या 28013/20/76-अ० भा० से० (1)-अ]

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Governments of the States and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulation 5, in sub-regulation (3)—

(a) in the opening sentence, for the word "shall not ordinarily consider", the words "shall not consider" shall be substituted;

(b) for the figure and word "52 years", wherever they occur, the figure and word "54 years" shall be substituted;

(c) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided further that a member of the State Police Service who has attained the age of fifty-four years on the first day of January of the year in which the Committee meets shall be considered by the Committee, if he was eligible for consideration on the first day of January, if the year or of any of the years immediately preceding the year in which such meeting is held but could not be considered as no meeting of the Committee was held during such preceding year or years".

[No. 28013/20/76-AIS(I)-B]

सा० का० नि० 571(अ).—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अधिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5, के उप-विनियम (3) में,

(क) प्रारम्भिक वाक्य में "साधारणतया विचार नहीं किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "विचार नहीं किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) जहाँ कहीं भी "52 वर्ष" शब्द तथा शब्द अंकित हुए हों के स्थान पर "54 वर्ष" शब्द तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ग) अन्त में निम्नलिखित परन्तु जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—
"परन्तु यह और भी कि राज्य वन सेवा के किसी सदस्य पर, जो उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को, जिस वर्ष में समिति की बैठक हो 54 वर्ष का हो गया हो, और यदि ऐसी बैठक होने के वर्ष की पहली जनवरी अथवा ठीक पूर्ववर्ती वर्षों की पहली जनवरी को वह विचार किए जाने का पात्र था,

लेकिन ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष प्रथम वर्षों के दौरान समिति की कोई बैठक न होने के कारण, उस पर विचार नहीं किया जा सका था, समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

[संख्या 28013/20/76-प्र० शा० से० (1)-ग]

टी० वी० रामनन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, in regulation 5, in sub-regulation (3)—

(a) in the opening sentence, for the words "shall not ordinarily consider", the words "shall not consider" shall be substituted;

(b) for the figure and word "52 years", wherever they occur, the figure and word "54 years" shall be substituted;

(c) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided further that a member of the State Forest Service who has attained the age of fifty four years on the first day of January of the year in which the Committee meets shall be considered by the Committee, if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or any of the years immediately preceding the year in which such meeting is held but could not be considered as no meeting of the Committee was held during such preceding year or years."

[No. 28013/3/20/76-AIS(I)-C]

T. V. RAMANAN, Jt. Secy.

